

खगड़िया से बड़ी मात्रा में नकली कीटनाशक बरामद



जागरण संवाददाता, खगड़िया : खगड़िया में नकली कीटनाशक दवा बेचकर किसानों की जिदगी बर्बाद करने में लगे दुकानों पर दिल्ली की नामी कंपनी बाड प्रोटेक्शन सर्विसेज की संयुक्त टीम ने कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छापेमारी की। जिसमें लाखों रुपये का नकली कीटनाशक बरामद किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि बिना किसी आदेश की कई कीटनाशक दवाई बेची जा रही थी। पीएनसी कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई बीज-कीटनाशक दुकानदार अवैध रूप से इस धंधे में लिप्त है। इस बाबत कंपनी के अंजनी कुमार पांडेय ने खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष को इसकी जानकारी दी। जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार से मिलकर एक टीम का गठन किया गया। टीम में स्थानीय कृषि कार्यालय के निवास कुमार, श्यामनंदन कुमार आदि को शामिल किया गया। टीम ने राहुल इंटर प्राइजेज में दबिश दी, तो चौकाने वाले तथ्य सामने आए। कुशवाहा बीज भंडार, किसान कृषि केंद्र समेत आधे दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई। टीम में शामिल कंपनी के अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि राहुल इंटर प्राइजेज से भारी मात्रा में नकली कीटनाशक दवा बरामद की गई है। इससे नकली खाद बीज बेचने वाले गिरोहों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि देहाती दुकानों पर भी निगाह सख्त है और इस तरह की सूचना मिल रही है। जिस पर कार्रवाई को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। मालूम को कि छह महीना पहले भी खगड़िया में नकली खाद फैक्ट्री पकड़ी गई थी।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/khagaria-khagaria-hindi-news-22747659.html>